



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 48) पटना, शुक्रवार, 15 जनवरी 2010

जल संसाधन विभाग

आदेश

15 दिसम्बर 2009

सं0 07/ए1-1000/2007-2955—जल संसाधन विभाग, बिहार में कार्यरत सहायक अभियंता (असैनिक) की अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन विभागीय आदेश सं0 365, दिनांक 14 फरवरी 2001 द्वारा किया गया था। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के कार्यान्वयन के फलस्वरूप विभागीय सहायक अभियंता (असैनिक) के संवर्ग का अंतिम रूप से विभाजन के पश्चात् उत्तरवर्ती बिहार राज्य में सहायक अभियंता (असैनिक), जल संसाधन विभाग में कार्यरत अभियंताओं की अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन अपेक्षित हो गया, फलस्वरूप विभागीय आदेश सं0 885, दिनांक 9 अप्रैल 2007 द्वारा उत्तरवर्ती बिहार राज्य, जल संसाधन विभाग में कार्यरत/अंतिम रूप से आवंटित सहायक अभियंता (असैनिक) की औपबंधिक वरीयता सूची का प्रकाशन करते हुए आपत्ति आमंत्रित की गई। प्राप्त आपत्तियों का निराकरण के पश्चात् विभागीय आदेश सं0 5, दिनांक 3 जनवरी 2008 द्वारा अंतिम रूप से विभागीय सहायक अभियंता (असैनिक) की वरीयता सूची का प्रकाशन किया गया।

उक्त प्रकाशित वरीयता सूची 08 के अनुसार कार्यपालक अभियंता (असैनिक) के पद पर प्रोन्नति एवं उन्हें देय ए0सी0पी0 लाभ उपलब्ध कराने की कार्रवाई के क्रम में उनकी सेवा इतिहास/ पूर्ण बायोडाटा विभागीय कम्प्यूटर कोषांग में अनुपलब्ध/अपूर्ण रहने की स्थिति में उक्त प्रोन्नति एवं लाभ हेतु अग्रेतर कार्रवाई करने में विभाग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फलतः विभागीय ज्ञापांक 2262, दिनांक 19 अगस्त 2009 द्वारा वांछित सेवा इतिहास/ बायोडाटा उपलब्ध कराने के निमित्त प्रेस विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा संबंधित सहायक अभियंता, श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक), वरीयता क्रमांक

1427/08, आई0डी0सं0 4408 का बायोडाटा एवं सेवा इतिहास की मांग की गई फिर भी श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक) की वांछित एवं अपेक्षित सूचनाएँ विभाग में अप्राप्त रहा है फलस्वरूप श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक), वरीयता क्रमांक 1427/08, आई0डी0 4408 का नाम वरीयता सूची '08' से विलोपित करने संबंधी आदेश सरकार द्वारा प्राप्त हुआ है।

अतएव श्री अजीत कुमार, सहायक अभियंता (असैनिक), वरीयता क्रमांक 1427/08, आई0डी0सं0 4408, जन्म-तिथि 1 नवम्बर 1962 (पहली नवम्बर उन्नीस सौ बासठ), गृह ज़िला-सिवान, संवर्ग अनु0 जन जाति का नाम जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के प्रासंगिक वरीयता सूची-'08' से विलोपित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 48-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>